

(c) the name of the fertilizers that will be manufactured daily in this project ; and

(d) the employment potential of the project ?

**THE MINISTER OF PETROLEUM, CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI P.C. SETHI) :**

(a) Negotiations to obtain a loan for the Hazira fertilizer Project were held with the World Bank in February, 1981. The approval of the Bank for a loan is awaited

(b) The project is likely to be completed by 1985.

(c) The project envisages production of urea at the rate of 4400 tonnes per day.

(d) The direct employment potential of the project is estimated around 2000 when the project goes into full production.

**Agreement for utilisation of power from Nathpa Jhakri Hydel Power Project**

5791. SHRI CHINTAMANI PANIGRAHI : Will the Minister of ENERGY be pleased to state :

(a) whether a fresh agreement for utilisation of power from the Nathpa Jhakri Hydel Power Project is being signed; and

(b) if so, what are the details in this regard ?

**THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN) :**

(a) and (b). A tripartite agreement between Himachal Pradesh, Haryana and the Central Government, for the exploitation of this project, with a view to conferring benefits on some of the States in the Northern region, is under finalization in consultation with the Planning Commission.

**हिन्दुस्तान इन्सैक्ट्रीसाइड्स द्वारा तकनीकी ग्रेड के कीटनाशी पदार्थों का उत्पादन**

5792. श्री प्रताप भानु शर्मा : क्या पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उपक्रम हिन्दुस्तान इन्सैक्ट्रीसाइड्स द्वारा तकनीकी ग्रेड के किन-किन कीटनाशी पदार्थों का उत्पादन किया जा रहा है और प्रत्येक की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान तकनीकी ग्रेड के इन कीटनाशी पदार्थों का वास्तविक वार्षिक उत्पादन कितना हुआ ;

(ग) क्या तकनीकी ग्रेड के किन्हीं नये कीटनाशी पदार्थों के उत्पादन की कोई योजना है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) फिलहाल हिन्दुस्तान इन्सैक्ट्रीसाइड्स लि० द्वारा निर्मित तकनीकी ग्रेड कीटनाशी के नाम, वार्षिक स्थापित क्षमता और पिछले पांच वर्षों में उनमें से प्रत्येक का उत्पादन निम्न प्रकार है :—

(टनों में)

| उत्पादन            | स्थापित | क्षमता  |
|--------------------|---------|---------|
|                    |         | 1975-76 |
| डी डी टी तकनीकी    | 4088    | 4421    |
| बी एच सी तकनीकी    | 3000    | 1752    |
| मेलारिथियोन तकनीकी | 1800    | —       |